

## अमर उजाला

### 25 लाख का नकली कॉस्मेटिक का सामान पकड़ा



सहारनपुर। नगर कोतवाली क्षेत्र के नखासा बाजार में एक कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ छापा मारकर करीब 25 लाख रुपये का नकली कॉस्मेटिक का सामान पकड़ा है। इससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि तीन से चार आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। देर रात तक कंपनी और पुलिस की टीमों जांच में जुटी रही। कंपनी की ओर से आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

एसपी प्रीति यादव ने बताया कि हिंदुस्तान यूनीलीवर कंपनी के अधिकारियों की ओर से जानकारी मिली थी कि नखासा बाजार में तीन दुकानों पर उनकी कंपनी के नाम से नकली कॉस्मेटिक सामान बेचा जा रहा है। शनिवार को कंपनी की तीन सदस्य टीम नगर कोतवाली पहुंची और पुलिस के साथ नखासा बाजार में तीनों दुकानों पर कार्रवाई की। मौके पर भारी भीड़ लग गई। कंपनी के अधिकारियों ने जांच की तो कॉस्मेटिक का सामान नकली मिला है। टीम ने मौके से क्रीम, पाउडर, हैंडवॉश, लिपिस्टक सहित कई सौंदर्य प्रसाधन का नकली सामान बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है। एसपी प्रीति यादव ने बताया कि तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। वहीं, देर रात तक कंपनी के अधिकारी पुलिस के साथ बरामद माल की जांच में जुटी रही। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। एक-एक बिंदु पर पड़ताल की जा रही है।

ग्राहक बनकर पहुंची थी टीम की महिला सदस्य छापा मारने से पूर्व कंपनी की टीम में शामिल महिला सदस्य ग्राहक बनकर दुकानों पर गई, जिसने तीनों दुकानों से कुछ सामान भी खरीदा, जो कंपनी के नाम से बेचा जा रहा था, जबकि जांच में यह सामान नकली मिला। इसके बाद टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई कर दी।

पहले भी पकड़ा जा चुका डेढ़ करोड़ का माल

डेढ़ वर्ष पूर्व पुलिस ने नगर कोतवाली पुलिस ने नखासा बाजार में ही छापा मारकर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की कीमत का नकली कॉस्मेटिक का सामान बरामद किया था। पुलिस को एक नामी कंपनी के अधिकारियों से सूचना मिली थी। तब, पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा था, जबकि दो फरार हो गए थे। आरोपी नकली सैनिटाइजर बनाने के धंधे में भी जुटे थे।

कई जगह होता था सप्लाई, लोगों के जीवन से खिलवाड़

पुलिस के मुताबिक इन दुकानों से कॉस्मेटिक का सामान सैलून, ब्यूटी पार्लर से लेकर अन्य जगहों पर भी सप्लाई होता था। इससे साफ है कि नकली कॉस्मेटिक का सामान बेचकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था। बाजोरिया रोड के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. एमएल अग्रवाल और वरिष्ठ फिजिशियन संजीव मिगलानी का कहना है कि नकली कॉस्मेटिक के इस्तेमाल से त्वचा पर खुजली, जखम, जलन और कैंसर तक हो सकता है। अगर यह पदार्थ शरीर के अंदर चले जाएं तो किडनी तक फेल कर सकते हैं।

हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब तक फैला नेटवर्क

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की जांच में सामने आया है कि इन दुकानों से जनपद के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब तक माल सप्लाई हो रहा था। छोटे दुकानदार यहां से कॉस्मेटिक का सामान खरीदकर ले जाते थे। इन आरोपियों का नेटवर्क जनपद के अलावा तीन राज्यों तक फैला है।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/saharanpur/fake-cosmetic-goods-worth-25-lakhs-caught-saharanpur-news-mrt5991435135>